

## प्रेस नोट

दिनांक 10.11.2022

सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

थाना जगदीशपुर पुलिस द्वारा लूट के 78,000/- रुपये नगद, 721 ग्राम बिस्किट पीली धातु व 01 अदद मोबाइल फोन के साथ 02 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 09.11.2022 को उ0नि0 जगदीश चन्द्र थाना जगदीशपुर मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 390/22 धारा 420, 392, 323 भादवि में वांछित मोटरसाइकिल सवार 02 अभियुक्त 1.नफीस पुत्र रसीद नि0 डोमाडीह थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 30 वर्ष व 2.खलील खां पुत्र शकील अहमद नि0 कूड़ेभार थाना कूड़ेभार जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 29 वर्ष को डोमाडीह पुल के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त नफीस के कब्जे से 24,000/- रुपये नगद व 01 अदद आयताकर 721 ग्राम पीली धातु व अभियुक्त खलील खां के कब्जे से 54,000/- रुपये नगद व 01 अदद एंड्रायड मोबाइल फोन बरामद हुआ । मोटरसाइकिल संख्या यूपी 36 सी 0042 के कागज मांगने पर दिखा न सके । थाना जगदीशपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.11.2022 को वादी अनित कुमार पुत्र रामखेलावन निवासी गुलरिया किशनपुर थाना लहरपुर जनपद सीतापुर द्वारा थाना जगदीशपुर पर लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 08.11.2022 को खलील खां निवासी कूरेभार जनपद सुल्तानपुर द्वारा अपने दोस्त नफीस पुत्र रसीद निवासी डोमाडीह थाना जगदीशपुर के साथ मुझे एक सुनहले का कलर का बिस्किट दिया तथा बताया कि यह बिस्किट सोने का है, शंका होने पर जब मैं बिस्किट को देखा तो वह पीतल का था यह बात जब मैं उन दोनों को बताया तो मुझसे मारपीट कर मेरे पास रखे 78,000/- रुपये नगद व मेरा मोबाइल छीन कर भाग गए । उक्त सूचना पर थाना जगदीशपुर पर मु0अ0सं0 390/22 धारा 420, 392, 323 भादवि पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. नफीस पुत्र रसीद नि0 डोमाडीह थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी उम्र करीब 30 वर्ष
2. खलील खां पुत्र शकील अहमद नि0 कूड़ेभार थाना कूड़ेभार जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 29 वर्ष ।

### बरामदगी-

- लूट के 78,000/- रुपये नगद
- 721 ग्राम बिस्किट पीली धातु
- 01 अदद एंड्रायड मोबाइल फोन

### पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

- मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 390/22 धारा 420, 392, 323, 411 भादवि थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।

### गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 जगदीश चन्द्र थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।
2. का0 पंकज राजपूत थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी
3. का0 विजय यादव थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।
4. का0 बाबी यादव थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी ।